

5277

**Bachelor of Business Administration  
(BBA) (Part-II) (Second Year)  
EXAMINATION, 2014**

**COMPANY LAW**

**Paper : BBA-206**

**Time allowed : Three hours**

**Maximum marks : 70**

*Attempt five questions out of seven.  
However, the word limit of each answer  
should not exceed 400. In case the  
question paper contains a case study, it  
will be considered equivalent to two  
questions and in that situation, the word  
limit should be 800 for answering the  
case study and further the candidate has  
to attempt three more questions with a  
word limit of 400 for each question.*

*Note : No supplementary answer sheet  
should be given to the candidates.*

PTO

सात प्रश्नों में से 5 (पाँच) प्रश्न कीजिये। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 400 शब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न-पत्र में केस स्टडी होने की स्थिति में यह केस स्टडी दो प्रश्नों के बराबर होगी और इस केस स्टडी की शब्द सीमा 800 शब्दों से अधिक नहीं हो तथा परीक्षार्थी तीन अन्य प्रश्न हल करेगा जो कि 400 शब्द सीमा से अधिक नहीं हो।

नोट—परीक्षार्थियों को पूरक उत्तर-पुस्तिकाएँ प्रदत्त नहीं की जायेंगी।

1. What do you mean by company ? What are the essential characteristics of a company ? Distinguish Public Limited Company from Private Company.

कम्पनी का मतलब क्या है ? कम्पनी की आवश्यक विशेषताएँ क्या हैं ? पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से किस प्रकार भिन्न है ?

2. What is Prospectus ? What are its contents ? Explain the legal requirements as to issue of a prospectus.

प्रविवरण क्या है ? इसके तत्त्व (कन्टेन्ट) क्या हैं ? प्रविवरण जारी करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिये।

3. How membership is acquired ? Who can be a member ? What are the rights and liabilities of a member ? Explain.

सदस्यता कैसे प्राप्त की जाती है ? सदस्य कौन हो सकता है ? एक सदस्य के अधिकार एवं दायित्व क्या हैं ? व्याख्या कीजिये।

4. What do you mean by Director ? What are qualification and disqualification of a Director ? What are the maximum and minimum limit of a Director for Public Limited Company ? Discuss.

निदेशक से आपका क्या मतलब है ? एक निदेशक की योग्यता एवं अयोग्यताएँ क्या हैं ? सार्वजनिक कम्पनी के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम निदेशक की संख्या क्या है ? चर्चा कीजिये।

5. What is meeting ? What are the different types of meetings and what are their purpose ? Explain.

बैठक क्या है ? विभिन्न प्रकार की बैठक क्या हैं और उनके क्या उद्देश्य हैं ? व्याख्या कीजिये।

6. Define winding up of a company. Enumerate different modes of winding up of a company.

कम्पनी की समाप्ति को परिभाषित कीजिये। कम्पनी की समाप्ति के विविध तरीकों को सविस्तार बताइये।

7. Write notes on any two :

- (i) Clauses of Memorandum of Association
- (ii) Kinds of Share Capital
- (iii) Prevention of Oppression and Mismanagement

किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिये :

- (i) मेमोरेन्डम ऑफ एसोशियेशन के क्लॉज
- (ii) शेयर पूँजी के तरीके
- (iii) आप्रेसन एवं कुप्रबन्धन को रोकना

Roll No. 482538

B

**5244**

**Bachelor of Business Administration  
(BBA) (Part II) (Second Year)  
EXAMINATION, 2016**

**COMPANY LAW**

Paper-BBA-206

Time allowed : Three hours

Maximum marks : 70

*Attempt any five questions out of seven.  
However, the word limit of each answer  
should not exceed 400. In case the  
question paper contains a case study, it  
will be considered equivalent to two  
questions and in that situation, the word  
limit should be 800 for answering the  
case study and further the candidate has  
to attempt three more questions with a  
word limit of 400 for each question.*

*Note : No supplementary answer-sheet  
should be given to the candidates.*

PTO

सात प्रश्नों में से 5 (पाँच) प्रश्न कीजिये। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 400 शब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न-पत्र में केस स्टडी होने की स्थिति में यह केस स्टडी दो प्रश्नों के बराबर होगी और इस केस स्टडी की शब्द सीमा 800 शब्दों से अधिक नहीं हो तथा परीक्षार्थी तीन अन्य प्रश्न हल करेगा जो कि 400 शब्द सीमा से अधिक नहीं हो।

परीक्षार्थियों को पूरक उत्तर-पुस्तिकाएँ प्रदत्त नहीं की जायेंगी।

✓ 1. What do you mean by Company ? Explain the different type of companies.

कम्पनी से आपका क्या मतलब है ? विभिन्न प्रकार की कम्पनियों की व्याख्या कीजिये।

2. Who is Promoter ? Discuss his legal position in relation to the company which he promotes.

प्रवर्तक कौन होते हैं ? प्रवर्तक जिस कम्पनी को बढ़ावा देता है उस कम्पनी में उसका क्या कानूनी स्थान होता है, पर चर्चा कीजिये।

✓ 3. What is Memorandum of Association ? What are its contents ? When and how may it be altered ?

पार्षद सीमानियम क्या है ? इसकी सामग्री क्या है ? यह कब और कैसे बदला जा सकता है ?

✓ 4. Who are the members of a company ? Distinguish between a member and a shareholder. How is membership terminated ?

कम्पनी के सदस्य कौन होते हैं ? सदस्य और अंशधारक में भेद बताइये। सदस्यता को कैसे समाप्त किया जाता है ?

✓ 5. How are directors appointed by a company in General meeting ? Discuss the powers and duties of a director of a company under the Act.

कम्पनी की सामान्य बैठक में निदेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है ? अधिनियम में कम्पनी के निदेशक की शक्तियों एवं कर्तव्यों पर चर्चा कीजिये।

6. What do you understand by quorum ? Must a quorum be present throughout a meeting ? What is the procedure if a quorum is never formed ?

कोरम से आप क्या समझते हैं ? क्या बैठक के दौरान कोरम का होना अनिवार्य है ? यदि कोरम कभी नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

✓ What do you mean by the winding up of a company ?  
What are the different modes of winding up ?

कम्पनी के समापन से आपका क्या मतलब है ? समापन के विभिन्न तरीके क्या हैं ?

Roll No. 3174

C

4006

**Bachelor of Business Administration (BBA)  
(Part II) (Semester IV)  
EXAMINATION, 2017**

Paper-bba-401

**COMPANY LAW**

Time allowed : Three hours

Maximum marks : 70

*Attempt five questions out of seven. In case the question paper contains a Case Study, it will be considered equivalent to two questions and in that case the student in addition to solving case study will have to answer any three from remaining five questions.*

Unit-I

1. Explain Memorandum of Association. How it is different from Articles of Association ? What are the different clauses contained in it ?

4+4+6

PTO

2. Discuss in detail the process and formalities involved in creating a company. 14

### Unit-II

3. Define key managerial person. What are the different key managerial persons in any company? 14

4. Write notes on (any two) :

(i) Company Secretary

(ii) Debentures

(iii) Mortgage

7+7

5. Explain the different rights available to the shareholders in the company. 14

### Unit-III

6. What do you mean by Annual General Meeting? Discuss in detail different type of meetings that a company has to conduct during a financial year? 4+10

7. What do you mean by minority shareholders? What are the clauses available in the Companies Act to prevent the rights of minority shareholders? 4+10

Total No. of Pages : 1]



4611

A-1408

[Total No. of Questions : 6

**B.B.A. (Part - II) (Semester - IV) EXAMINATION - 2021**

**Paper BBA - 401**

**COMPANY LAW**

*Duration : 90 Minutes]*

*[Max. Marks : 70*

*अवधि : 90 Minutes]*

*[पूर्णांक : 70*

*Instructions to the candidates :*

Attempt questions to the extent of 50% of maximum marks of the question paper. Any question with or without 'or' or from any unit/section/part may be chosen.

प्रश्न पत्र के किसी भी इकाई/भाग/खंड में से स्वेच्छा से इस प्रकार प्रश्नों का चयन करें कि प्रश्न पत्र के पूर्णांक में से अधिकतम 50% अंकों के प्रश्न हल हो सकें। 'अथवा' के साथ दिए प्रश्नों में भी किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है।

In case the question paper contains a Case Study, it will be considered equivalent to two questions and in that case the student in addition to solving case study will have to answer any three from remaining five questions.

- Q1) a) What preliminary steps are taken for incorporation of a company. [7]*  
b) Enumerate the documents that are required to be filed with registrar for incorporation of a company. [7]
- Q2) Explain the importance of memorandum of Association in the life of a company. How does it differ from Articles of Association. [7+7]*
- Q3) Discuss the consequences of omission, misrepresentation and fraud in connection with prospectus of a company. Also narrate the circumstances under which a director may be absolved from the liability. [7+7]*
- Q4) How is the membership of a company acquired? In what circumstances does it cease? [14]*
- Q5) What is the difference between director and board of directors? Explain the main duties of directors in a company. [14]*
- Q6) What is annual general meeting? Describe the secretarial procedure of holding an annual general meeting. [14]*

○○○



90121

**B.B.A. (Part-II) (Semester-IV) Examination - 2022**  
**Paper - BBA - 401**  
**COMPANY LAW**

*Duration of Examination: 1½ Hrs.*

परीक्षा की अवधि: 1½ घण्टा

*Max. Marks: 42*

पूर्णांक: 42

**Instructions to the Candidates:**

**परीक्षार्थी के लिए निर्देश:-**

Attempt any three questions of seven questions.

(3x14=42 Marks)

सात प्रश्नों में से कोई तीन प्रश्न हल कीजिए।

- Q-1. What is Company? Write different characteristics of a company.
- Q-2. Explain different contents of Article of Association. Why the Article of Association is critical and important to the company?
- Q-3. What are different kinds of sources of finance available for the companies in India? Explain in detail.
- Q-4. Write and explain duties and powers of Directors of a company.
- Q-5. Define "Quorum". Why it is significant for a meeting of Board?
- Q-6. Why the Annual General Meeting is an important event for every organization? Explain in detail.
- Q-7. Write short notes on any two of the following.
- Prospectus.
  - Voting Rights.
  - Minutes of the meeting.

\*\*\*\*\*



7011

**Bachelor of Business Administration**  
**BBA Pt-II (Semester-IV)**  
**Examination, 2023**  
**Paper - BBA- 401**  
**Company Law**

*Duration of Examination: 3 Hours*

परीक्षा की अवधि: 3 घण्टा

*Max. Marks: 70*

पूर्णांक: 70

**Instructions to the Candidates:****परीक्षार्थी के लिए निर्देश:-**

*Attempt five questions out of seven. In case the question paper contains a Case Study, It will be considered equivalent to two questions and in that case the student in addition to solving case study will have to answer any three from remaining five questions.*

- 
- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 1-  | Differentiate between Memorandum of Association and Articles of Association.                                       | 14    |
| 2-  | Classify and Explain different types of companies as per company act 1956.   | 14    |
| 3-  | How is the membership of a company acquired? In what circumstances does it ceases.                                 | 7+7   |
| 4-  | Write & Explain in the duties & powers of direction of a company.  | 14    |
| 5-  | Discuss the position of directors in a company. Also discuss the methods of appointment of directors in a company. | 7+7   |
| 6-  | Write short notes on.  | 3.5x4 |
| (a) | Quorem   |       |
| (b) | Voting   |       |
| (c) | Resolution   |       |
| (d) | Minutes.   |       |
| 7-  | Differentiate between winding up and dissolution of a company. Discuss the duties of company Liquidation.          | 8+6   |

\*\*\*\*\*



7011

**Bachelor of Business Administration (BBA)**  
**(Part-II) (Semester-IV)**  
**EXAMINATION - 2024**  
**(Old Scheme)**  
**Paper - BBA-401**  
**COMPANY LAW**

*Duration of Examination: 3 Hours*

*परीक्षा की अवधि: 3 घण्टा*

*Max. Marks: 70*

*पूर्णांक : 70*

**Instructions to the Candidates:**

**परीक्षार्थी के लिए निर्देश:-**

*Attempt five questions out of seven. In case the questions paper contains a Case Study. It will be considered equivalent to two questions and in that case the student in addition to solving case study will have to answer any three from remaining five questions.*

1. Define meaning of company, also define nature and various types of companies?
2. What is prospectus? What are the consequences of mis statement of fraudulent statement in prospectus?
3. Differentiate between memorandum of association and articles of association.
4. Write short notes on these:-
  - (a) Share capital
  - (b) Mortgages and charges
  - (c) Debentures.
5. How directors are appointed in a company? State fully.
6. Write short notes on these:-
  - (a) Quorum
  - (b) Resolution
  - (c) Majority powers and minority rights.
7. Write short notes on these:-
  - (a) Winding up of company
  - (b) Prevention of oppression and mismanagement.
  - (c) Kinds and conduct.

\*\*\*\*\*